

परिशिष्ट सारणी 5 : पूंजीगत प्राप्तियाँ

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2005-06 (लेखा)	2006-07 (बजट अनुमान)	2006-07 (संशोधित अनुमान)	2007-08 (बजट अनुमान)	अंतर					
					कॉ.2 की तुलना में कॉ.4		कॉ.3 की तुलना में कॉ.4		कॉ.4 की तुलना में कॉ.5	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल पूंजी प्राप्तियाँ (1 से 10)	1,64,607	1,51,782	1,43,307	1,61,112	-21,300	-12.9	-8,475	-5.6	17,805	12.4
1. आंतरिक ऋण* जिसमें से :	1,16,644	1,10,700	1,03,600	1,14,658	-13,044	-11.2	-7,100	-6.4	11,058	10.7
बाजार ऋण (सकल)	22,795	28,268	24,978	36,818	2,183	9.6	-3,290	-11.6	11,840	47.4
एनएसएसएफ @ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	78,576	64,815	62,299	59,746	-16,277	-20.7	-2,516	-3.9	-2,553	-4.1
2. केंद्र से प्राप्त ऋण@	8,097	13,525	10,197	14,918	2,101	25.9	-3,328	-24.6	4,721	46.3
3. ऋण और अग्रिमों की वसूली	8,904	5,326	8,482	4,592	-422	-4.7	3,156	59.3	-3,890	-45.9
4. अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि (निवल)	10,463	10,336	10,887	12,396	423	4.0	551	5.3	1,509	13.9
5. आकस्मिकता निधि (निवल)	838	57	244	178	-594	-70.9	188	-	-66	-27.1
6. आरक्षित निधि (निवल)**	5,228	4,365	4,778	4,235	-450	-8.6	413	9.5	-543	-11.4
7. जमा और अग्रिम (निवल)***	7,262	-1,154	1,775	1,515	-5,488	-75.6	2,928	-253.8	-260	-14.7
8. आकस्मिकता निधि में विनियोग (निवल)	-801	-	-60	-	741	-92.5	-60	-	60	-100.0
9. विप्रेषण (निवल)	51	1,975	319	-44	268	520.3	-1,656	-83.8	-364	-113.9
10. अन्य#	7,920	6,652	3,085	8,665	-4,835	-61.0	-3,567	-53.6	5,580	180.9

'-' : नगण्य / शून्य

* भा.रि.बैंक से अर्थोपाय अग्रिम / ओवरड्राफ्ट को छोड़कर, इसमें बाजार ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, भूमि क्षतिपूर्ति और अन्य बांड भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से नकदी ऋण और कर्ज (निवल) तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, नाबार्ड की राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधिक परिचालन) निधि से दिए गए ऋण आदि शामिल हैं।

@ वर्ष 1999-2000 से लेखा प्रणाली में परिवर्तन के साथ अल्प बचत में राज्यों का अंश जो अब तक केंद्र से ऋण शीर्ष के अंतर्गत आंतरिक ऋण में शामिल किया जाता था, अब केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों के रूप में अलग मद में दर्शाया जाता है।

** आरक्षित निधि (निवल) में, ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ (जैसे सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों की मूल्यहास आरक्षित निधियाँ) और ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ (जैसे शोधन निधि, अकाल राहत निधि तथा सड़क और पुल निधि) शामिल हैं।

*** जमा राशियों और अग्रिमों (निवल) में ब्याजवाली जमाराशि, (जैसे कि स्थानीय निधियों की जमाराशि) और ब्याज-रहित जमाराशि (जैसे रक्षा और डाक जमाराशि, तथा सिविल अग्रिम) शामिल हैं।

उच्च और विविध (निवल) तथा अंतर-राज्य निपटान (निवल) और विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ शामिल हैं।

टिप्पणी : 1. जम्मू और कश्मीर, झारखंड के वर्ष 2005-06 (लेखा) के आंकड़े संशोधित अनुमान से संबंधित हैं।

2. पूंजी प्राप्तियों में निवल आधार पर लोक लेखा शामिल। परिशिष्ट की टिप्पणियाँ भी देखें।

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज।